

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अप्रैल 2014—चैत्र 26, शक 1936

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2014 (चैत्र 26, 1936)

विधान सभा के सदस्य की निधन की सूचना

क्र. 6158-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 94, बहोरीबंद से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रभात पाण्डे (बड़े बब्बू) का दिनांक 12 अप्रैल, 2014 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.